

AGREEMENT NO:- 41/MMGSY/(SC)5BD/2020-21
CH OF WORK:- LOTS TO TANGTANGI

Schedule XLV-Form No. 134

RWD(WD)KISHANGANG - 2 DIVISION

DIGHAL BANK SUB-DIVISION

MB NO-1133

MEASUREMENT BOOK

SUSHANT KUMAR DAS

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जे.पी.एस.प्रसाद.
सहायक अभियंता, ग्रा.का.वि.कार्य अवर प्रमण्डल, दिहाल बैंक
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रा.का.वि.कार्य प्रमण्डल
दिहानगंज-2
26/11/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D/W.D/KISHANGANJ DIVISION
DIGHALBANK SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1133

Name of officer श्री राम प्रसाद सहायक अभि

अभि. मा.सी.का. वि. का. अवर प्रमण्डल बैंक

Date of first entry _____

1

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road:- Lot 45 to Tangtangi					
Agency = Sushant Kumar Das					
At - Old Kali mandir road					
Ward no. 30, Roll Bagh,					
Dt - Kishanganj, 855108.					
Agreement No. - 41/MM454(SC)/SBD/					
2020-21					
Rate of Agreement = 0.05% Below,					
D.O. w/ start = 24-06-2020.					
DIE = 20/01/2020.					
Record Measurement.					
(1) P/fixing MM454 information					
Logo board - do - r. job = 2 no.					
(2) P/fixing MM454 Logo Board = 2 no.					
(3) Const. of B.M. and Ref Pillar c. job.					
= (3 nos)					= 0.90 km
4) Const. of B.M. as workshop Ref Pillar					
= (4 nos)					= 0.90 km.
5) Clearing & grubbing of road					
land - do - all r. job.					

$$\begin{aligned}
 &22 \times 30 \times 3.0 \text{ Continuation} = 1980.00 \\
 &1 \times 17 \times 3.0 = 51.00 \\
 &\quad \quad \quad = 2031.00 \text{ m} \\
 &\quad \quad \quad = 0.20 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(6) Const. of Embankment - C.S.B.					
	22	30.0	6.0	0.10	$= 396.00 \text{ m}^3$
	1	17.0	6.0	0.10	$= 10.20 \text{ m}^3$
					406.20 m^3
(A) 1000 m bed 60% ±					243.72
(B) 1000 m bed 40% ±					162.48 m^3
(6) E/W in exrav. for irrigation					
	3	7.00	0.70	0.60	$= 8.82 \text{ m}^3$
(7) 1st class bedding with sand.					
	3	7.00	0.30	0.25	$= 1.58 \text{ m}^3$
(8) P/Logging NP 300 m under H.P.					
	3 x	2.5 x	3	2	22.5 m^3

Record Measurement

1) Const. of Subgrade & earth					
Shoulder - do - all C.S.B.					
	12	30.0	6.0	0.30	$= 648.00 \text{ m}^3$
	6	30.0	6.0	0.30	$= 324.00 \text{ m}^3$
					972.00 m^3
2) P/G.S.B. Gr. P 2b - C.S.B.					
	12	30.0	4.00	0.20	$= 291.60 \text{ m}^3$
	6	30.0	4.00	0.20	$= 145.80 \text{ m}^3$
					437.40 m^3
P/30 ft/20					
S.E.					

ABSTRACT OF COST.

3

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1) Const. of B.M. for T. Job.					
vide T.M.B. Page (1) Item (3)					
= 0.900 m @ 3391.76/-					3053.00
2) Const. of Ref. works B.M. C/S					
vide T.M.B. Page (1) Item (4)					
= 0.900 m @ 1579.28/-					1421.00
3) Clearing and grubbing of road land - T. Job.					
vide T.M.B. Page 1 Item (5)					
= 0.20 Ha @ 51109.28/ha					10222.00
4) Const. of Embankment - Road					
vide T.M.B. Page (2) Item 6 A					
= 243.72 m ³ @ 174.63/m ³					42561.00
5) Const. of Embankment - Road					
vide T.M.B. Page (2) Item 6 B					
= 162.48 m ³ @ 151.00/m ³					24534.00
6) Const. of Subgrade & Earthwork Shoulder for all T. Jobs					
vide T.M.B. Page (2) Item (1)					
= 972.00 m ³ @ 187.61/m ³					182357.00

Continuation

Rs. 264148.00

Continuation